



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, नवम्बर 12, 2009/कार्तिक 21, 1931

No. 652]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2009/KARTIKA 21, 1931

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-1 प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 817(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में कतिपय पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्रारंभिक गठन.—उक्त अनुसूची में वर्णित पदों के ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उक्त प्रारंभ से पूर्व उनके द्वारा उक्त पद पर की गई सेवा की गणना अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उनकी पात्रता का विनिश्चय करने के लिए की जाएगी।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<p>(iii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा ।</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) 5200-20200 रु० के वेतनमान + 2400/- रु० के ग्रेड वेतन में ऐसे हेड कांस्टेबल जिन्होंने राज्य या केन्द्रीय पुलिस संगठनों में उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है ; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य ; और</p> <p>(ii) आपराधिक मामले के अन्वेषण या आसूचना कार्य या संचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>(3) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा :- हेड कांस्टेबल पद के ऐसे अधिकारी जिन्होंने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में उस श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष नियमित सेवा की है ।</p> <p>टिप्पण : उप पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक और शक्तियों की उपलब्धता पर महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अन्य सदस्यों की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा सीमित विभागीय परीक्षा संचालित की जाएगी ।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p> <p>13</p> <p>प्रोन्नति/पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप पुलिस महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष 2. निदेशक/ उप सचिव (आंतरिक सुरक्षा -1 प्रभाग), गृह मंत्रालय - सदस्य 3. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य <p>14</p> <p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।</p> <p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।</p>
--	--

1	2	3	4	5	6	7
2. ऑकड़ा प्रविष्टि आपरेटर	05* (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसूचित	वेतन बैंड-1, 5200-20200 ₹ + ग्रेड वेतन 2800 ₹	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8						
लागू नहीं होता।				9		
लागू नहीं होता।				10		
लागू नहीं होता।				11		
प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।				12		
				<p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा स्वायत्त सरकारी संस्थाओं के ऐसे अधिकारी जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 'ओ' या 'ए' स्तर का प्रमाणपत्र हो।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
13				14		
<p>प्रोन्नति/पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :-</p> <ol style="list-style-type: none"> उप पुलिस महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष ज्येष्ठ तंत्र विश्लेषक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य 				संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।		

1	2	3	4	5	6	7
3. उच्च श्रेणी लिपिक	04* (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 ₹ + ग्रेड वेतन 2400/- ₹	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
			8	9		10
लागू नहीं होता।			लागू नहीं होता।		लागू नहीं होता	
11			12			
(i) 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; (ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा ; (iii) 30 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा।			(i) प्रोन्नति:- ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा पूरी की है। (ii) प्रतिनियुक्ति या आमेलन:- केन्द्रीय या राज्य सरकारों अथवा कानूनी स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं। (iii) सीमित विभागीय परीक्षा:- ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतनमान 5200-20200 ₹ + ग्रेड वेतन 1900 ₹ की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।			
<p>टिप्पण : परीक्षा शक्तियों की उपलब्धता पर उप पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष</p>						

		से अधिक नहीं होगी।	
13		14	
प्रोन्नति/पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :- 1. उप पुलिस महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष 2. निदेशक/ उप सचिव (आंतरिक सुस्था -1 प्रभाग), गृह मंत्रालय - सदस्य 3. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।	
1	2	3	4
हैड	10* (2009)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200- 20200 रू + ग्रेड वेतन 2400/- रू
कांस्टेबल	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		
8		9	
लागू नहीं होता।		लागू नहीं होता।	
11		12	
(i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; (ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा ; (iii) 25 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा ।		(i) प्रोन्नति:- ऐसे कांस्टेबल जिन्होंने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में उस श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष नियमित सेवा की है । (ii) प्रतिनियुक्ति या आमेलन: केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठन या अन्वेषण अथवा आसूचना अभिकरण के ऐसे अधिकारी जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं । (iii) सीमित विभागीय परीक्षा: कांस्टेबल के पद पर ऐसे अधिकारी जिन्होंने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में उस श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष नियमित सेवा की है ।	

				टिप्पण : किसी साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षण की दशा में सीमित विभागीय परीक्षा शक्तियों की उपलब्धता पर उप पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी।		
13				14		
प्रोन्नति/पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :- 1. उप पुलिस महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष 2. निदेशक/ उप सचिव (आंतरिक सुरक्षा -1 प्रभाग), गृह मंत्रालय - सदस्य 3. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य				संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।		
1	2	3	4	5	6	7
5. आधुनिक श्रेणी-घ	11* (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अरंजपत्रित, अननुसूचित	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400/- रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिक्षित की जा सकती है।)
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)						

8	9	10
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और जिनके पास आशुलिपिक (अंग्रेजी या हिन्दी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति है।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
11	12	13
(i) 80 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ; (ii) 20 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 5200-20200/- रु के वेतनमान + 1900/- रु के ग्रेड वेतन में अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य पद में मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता है। सीमित विभागीय परीक्षा: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में ऐसे अधिकारी जिन्होंने 5200-20200/- रु के वेतनमान + 1900/- रु के ग्रेड वेतन वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	प्रोन्नति या पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :- 1. उप पुलिस महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष 2. निदेशक/ उप सचिव (आंतरिक सुरक्षा -1 प्रभाग), गृह मंत्रालय - सदस्य 3. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य
14	15	16
	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।	

1	2	3	4	5	6	7
6. कांस्टेबल	45* (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचितीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 ₹ + ग्रेड वेतन 2000/- ₹	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पंगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।		8		9		10
				लागू नहीं होता।		दो वर्ष।
		11		12		
(i) 40 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; (ii) 60 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।		प्रतिनियुक्ति या आमेलन - केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारियों में से जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर संदर्भ पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास अधिमानतः अन्वेषण या आसूचना या कंप्यूटर अथवा चालन के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव है। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक				

नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छपन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		14				
प्रोन्नति/पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :- 1. उप पुलिस महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष 2. निदेशक/ उप सचिव (आंतरिक सुरक्षा -1 प्रभाग), गृह मंत्रालय - सदस्य 3. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।				
1	2	3	4	5	6	7
7. स्टाफ कार चालक (कांस्टेबल)	22* (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 2000/- रु	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के

लिए विहित की गई है।)	9	10
<p>8</p> <p>आवश्यक : (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) जिनके पास मोटर कार या भारी यान चलाने के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति है और जिन्हें मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान है और जिनके पास मोटर कार या भारी यान चलाने का पाँच वर्ष का अनुभव है। वांछनीय: होम गार्डों या असेनिक स्वयंसेवकों के अभिहित संगठन के सदस्य के रूप में तीन वर्ष की सेवा।</p>	<p>9</p> <p>लागू नहीं होता।</p>	<p>10</p> <p>दो वर्ष।</p>
<p>11</p> <p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>12</p> <p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन - (क) (i) केन्द्रीय या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 5200-20200/- रू० के वेतनमान + 1900/- रू० के ग्रेड वेतन में सवार हस्कारा (समूह ग) के पद पर उसकी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता है। पुनर्नियोजन के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति : सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>	<p>11</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष</p>

से अधिक नहीं होगी।		13					14	
प्रोन्नति या पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :-		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।						
1. पुलिस अधीक्षक - अध्यक्ष		2. अवर सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य						
3. अपर पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य								
1	2	3	4	5	6	7		
8. अवर श्रेणी लिपिक	02* (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसर्चिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 1900/- रु	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)		
		टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)						
आवश्यक :		8					9	10
							सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	

किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और जिसके पास हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति और अंग्रेजी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति हो ।	दो वर्ष ।
11	12
(i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; (ii) 5 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; (iii) 10 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा ।	<p>प्रोन्नति: 5200-20200/- रू० के वेतनमान + 1800/- रू० के ग्रेड वेतन में ऐसे समूह घ पद के अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित ऐसी अर्हता है ।</p> <p>सीमित विभागीय परीक्षा: ऐसे अधिकारी जिन्होंने 5200-20200/- रू० के वेतनमान + 1800/- रू० के ग्रेड वेतन में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता है ।</p> <p>टिप्पण : सीमित विभागीय परीक्षा शक्तियों की उपलब्धता पर उप पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी ।</p>
13	14
प्रोन्नति/पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :- 1. उप पुलिस महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष 2. निदेशक/ उप सचिव (आंतरिक सुरक्षा -1 प्रभाग), गृह मंत्रालय - सदस्य 3. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 11034/11/2009-आईएस-VI (भाग)]

डी. दिप्तीविलास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Internal Security-I Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2009

G.S.R. 817(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain posts in the National Investigation Agency under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.- The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in the columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. Initial Constitution.- The incumbents of the posts mentioned in the said Schedule who on the date of commencement of these rules are holding the post on regular basis shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by them in the said post on regular basis before the said commencement shall be taken into account for deciding their eligibility for promotion to the next higher grade.

5. Disqualification - No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
Name of Posts	Number of posts	Classification	Pay Band, scale of pay and grade pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Service (Pension) Rules 1972.	Age limit for direct recruits
1. Assistant Sub-Inspector	09* (2009). *Subject to	General Central Service, Group	Pay Band-1, Rs.5200 - 20200 plus Grade Pay of	Selection	Not applicable	Not applicable

of Police	variation dependent on workload.	'C', Gazetted, Non-Ministerial.	Non-	Rs.2800.								
8	9	10	11	12	13	14						
Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotions or deputations or absorptions to be made.	If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.						
Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) 25% by promotion; (ii) 25% by Limited Departmental Examination; (iii) 50% by Deputation or absorption.	(1) Promotion: Head Constable with five years of regular service in that grade. (2) Absorption: Officers of the Central Police Organisations or State Police Organisations or Government Intelligence or other investigation bodies- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or	Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion/confirmation:- 1. Deputy Inspector General of Police, National Investigation Agency -Chairman 2. Director/Deputy Secretary (Internal Security-I Division), Ministry of Home Affairs - Member. 3. Superintendent of Police, National Investigation Agency - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.						

	(ii) Head constable in the scale of pay of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400 with five years of service, in that grade in the State or Central Police organizations; and		
	(b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Bachelor's degree from a recognised university or equivalent; and (ii) experience of at least two years in the field of investigation of criminal cases, or intelligence work or operations or Information Technology management.		
	Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for		

				<p>appointment by promotion.</p> <p>Note 2:- The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3:- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>(3) Limited Departmental Competitive Examination: Officers in the post of Head Constable with at least five years regular service in that grade in National Investigation Agency.</p> <p>Note: The Limited Departmental Examination shall be conducted by the National Investigation Agency through a committee headed by Deputy Inspector General of Police or</p>
--	--	--	--	---

					Inspector General of Police and two other members to be nominated by Director General on the availability of vacancies.		
1	2	3	4	5	6	7	
2. Data Entry Operator	5* (2009). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs.5200 – 20200 plus Grade Pay Rs.2800	Not applicable	Not applicable	Not applicable	
8.	9	10	11	12	13	14	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation or absorption.	Deputation or Absorption:- Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Government Institutions holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department and possessing 'O' or 'A' level certificate for Information Technology from an Institute recognised by	Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion/confirmation:- 1. Deputy Inspector General of Police, National Investigation Agency -Chairman 2. Senior System Analyst, National Investigation Agency - Member 3. Superintendent of Police, National Investigation Agency - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.	

					the Government.		
					<p>Note 1:- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of the department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2:- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		

1	2	3	4	5	6	7
3. Upper Division Clerk	04* (2009). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs.5200 – 20200 plus grade pay Rs.2400	Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	Not applicable	<p>(i) 20% by promotion;</p> <p>(ii) 50% by Deputation or Absorption;</p> <p>(iii) 30% by Limited Departmental Examination.</p>	<p>(i) <u>Promotion</u>: Lower Division Clerk who have completed eight years regular service in that grade.</p> <p>(ii) Deputation or Absorption: Officers of the Central or State Governments or Statutory Autonomous bodies holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department.</p> <p>(iii) <u>Limited Departmental Examination</u>: Officers having eight years of regular service in the grade in the scale of pay of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900.</p> <p>Note: The Examination shall be conducted by the National Investigation Agency through a committee headed by Deputy</p>	<p>Group – 'C' Departmental Promotion Committee for promotion/confirmation:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Inspector General of Police, National Investigation Agency -Chairman 2. Director/Deputy Secretary (Internal Division), Ministry of Home Affairs - Member 3. Superintendent of Police, National Investigation Agency - Member. 	Consultation with Union Service Commission is not necessary.

Inspector General of Police or Inspector General of Police on availability of vacancies.	Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Note 2: Period of deputation including period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	Note 3:- The maximum					

					age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7
4. Head Constable	10* (2009). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs.5200 - 20200 plus Grade Pay Rs.2400.	Selection	Not applicable	Not applicable
8	9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) 25% promotion; (ii) 50% Deputation or Absorption; (iii) 25% by Limited Departmental Examination.	(i) Promotion: Constable with at least five years of regular service in that grade in the National Investigation Agency. (ii) Deputation or Absorption: Officers of the Central or State Police Organisation or Intelligence agency holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department.	Group - 'C' Departmental Promotion Committee for promotion/confirmation:- 1. Deputy Inspector General of Police, National Investigation Agency -Chairman 2. Director/Deputy Secretary (Internal Security-I Division), Ministry of Home Affairs - Member 3. Superintendent of Police,	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central government from time to time).	Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,

4114 GI/09-4

						Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep)
8	9	10	11	12	13	14
Essential: Matriculation from a recognised Board or equivalent having a	Not applicable	Two years for direct recruits	(i) 80% by Direct Recruitment, failing which by Deputation. (ii) 20% by Limited Departmental Examination.	Deputation: Officers of the Central Government – (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or	Group 'C' Departmental Promotion committee for promotion or confirmation: 1. Deputy Inspector General of Police, National Investigation Agency – Chairman.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

speed of 80 words per minute in Stenography (English or Hindi)					<p>(ii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Lower Division Clerk in the scale of pay of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>Limited Departmental Examination:</p> <p>Officers in the National Investigation Agency having eight years of regular service in the posts in the scale of pay of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900 and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>Note 1:- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for</p>	<p>2. Director/Deputy Secretary (Internal Security-I Division), Ministry of Home Affairs – Member.</p> <p>3. Superintendent of Police, National Investigation Agency – Member.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
6. Constable	45* (2009). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs.5200 – 20200 plus Grade Pay Rs.2000.	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 27 years of age (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in

<p>the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p>Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,</p>						
--	--	--	--	--	--	--

							Manipur, Nagaland, Tripura, sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).						
8	Matriculation from a recognised Board or equivalent.	9	Not applicable	10	Two years.	11	40% by direct recruitment; 60% by Deputation or Absorption.	12	<u>Deputation or Absorption:</u> From amongst officers of the Central or State Police Organisations holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and having experience of at least five years, preferably in the field of investigation or intelligence or computer or driving.	13	Group - 'C' Departmental Promotion Committee for promotion/confirmation:- 1. Deputy Inspector General of Police, National	14	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

1	2	3	4	5	6	7
7. Staff Car Driver (Constable).	22* (2009). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs.5200 – 20200 plus Grade Pay Rs. 2000.	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 27 years of age (Relaxable for Government servants upto the age of forty in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in
				<p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Investigation Agency -Chairman</p> <p>2. Director/Deputy Secretary (Internal Security-I Division), Ministry of Home Affairs - Member</p> <p>3. Superintendent of Police, National Investigation Agency - Member.</p>	

[illegible]

8	9	10	11	12	13	14
<p>Essential:</p> <p>(a) Secondary School Examination Pass recognised Board or equivalent.</p> <p>(b) Possession of a valid driving licence for motorcars or Heavy Vehicles and knowledge</p>	Not applicable	Two years.	Deputation or absorption which by direct recruitment.	<p><u>Deputation or absorption</u></p> <p>(a) (i) Officers of the Central or State Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with three years of service in the grade rendered after appointment thereto in the scale of pay of Rs. 5200-20200 plus grade of Rs. 1900 in the post of Dispatch Riders (Group- C); and</p> <p>(b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under Column 8.</p>	<p>Group - 'C'</p> <p>Departmental Promotion Committee for promotion or confirmation:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Superintendent of Police -Chairman 2. Under Secretary, Ministry of Home Affairs - Member 3. Additional Superintendent of Police or Deputy 	<p>Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).</p>

of motor mechanism and experience of five years of driving motor car or Heavy Vehicles.				<p>Deputation for Ex-Servicemen on re-employment basis:</p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits under Column 8 shall also be considered for appointment on deputation. Such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment:</p> <p>Note 1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2:- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Superintendent of Police, National Investigation Agency – Member.</p>	
<p>1</p> <p>Desirable: Three years' service as a member of a designated organisation of Home Guards or Civil Volunteers</p>	2	3	4	5	6	7
<p>8. Lower Division Clerk</p>	<p>02. (2009) *Subject to variation dependent</p>	<p>General Central Service, Group 'C'.</p>	<p>Pay Band-1, Rs.5200 – 20200 plus grade pay of</p>	<p>Not applicable</p>	<p>Not applicable</p>	<p>Between 18 to 27 years of age</p>

on workload.	Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Rs. 1900.																																																																													

for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep)					
--	--	--	--	--	--

8	9	10	11	12	13	14
Essential:- Matriculation from a regional Board or equivalent having a typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.	Yes.	Two years for direct recruits.	(i) 85% by Direct Recruitment; (ii) 5% by promotion; (iii) 10% by Departmental Limited Examinations.	<p>Promotion: Officers in the posts of Group 'D' in the scale of pay of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1800 who have five years of regular service in the grade and possess such qualification as prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>Limited Departmental Examination: Officers having five years of regular service in the scale of pay of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1800 and possessing qualification prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>Note: The Limited Departmental Examination shall be conducted by the National Investigation Agency through a committee headed by the Deputy Inspector General of Police or Inspector General of Police on availability of vacancies.</p>	Group Departmental Promotion Committee for promotion/confirmation:- 1. Deputy Inspector General of Police, National Investigation Agency -Chairman 2. Director/Deputy Secretary (Internal Security-I Division), Ministry of Home Affairs - Member 3. Superintendent of Police, National Investigation Agency - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 11034/1/2009-IS-VI (Pt.)]

D. DIPTIVILASA, Jr. Secy.